

परिशिष्ट सारणी III.6: निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए)

क्षेत्र	मार्च 2006		मार्च 2007		मार्च 2008@	
	राशि	समायोजित निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	समायोजित निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	राशि	समायोजित निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	1,06,586	42.8	1,44,549	42.9	1,63,223	47.5
<i>जिनमें से:</i>						
I. कृषि	36,712	13.6	52,034	12.7	57,702	15.4
II. छोटे उद्यम	10,421	4.2	13,136	3.9	-	-
III. लघु उद्योग *	-	-	-	-	46,069	13.4
IV. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	57,777	23.2	76,919	22.9	-	-
V. खुदरा व्यापार	-	-	-	-	8,065	2.4
VI. व्यक्ति ऋण	-	-	-	-	3,883	1.2
VII. शिक्षा	-	-	-	-	509	0.2
VIII. आवास	-	-	-	-	46,990	14.0

@ : आंकड़े अनंतिम हैं।

: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम में मुख्यतः कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, व्यक्ति ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम संबंधी नए दिशा-निर्देशों में लघु तथा व्यक्ति उद्यमों की संशोधित परिभाषा व्यक्ति, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की परिभाषा के अनुसार ली गई है।

टिप्पणी : 1. कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

2. 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलन -पत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण के साथ संबंधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य/उप-लक्ष्य, जो भी अधिक हो, प्रभावी है।

स्रोत : बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़े।